

# Rev

## Chapter 21

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν, καὶ γῆν καινὴν; ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς  
और मैंने-देखा स्वर्ग नया और पृथ्वी नई वह क्योंकि पहला स्वर्ग  
[G2532](#) [G3708](#) [G3772](#) [G2537](#) [G2532](#) [G1093](#) [G2537](#) [G3588](#) [G1063](#) [G4413](#) [G3772](#)

καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.  
और वह पहली पृथ्वी चले-गए और वह समुद्र नहीं है फिर  
[G2532](#) [G3588](#) [G4413](#) [G1093](#) [G0565](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2281](#) [G3756](#) [G1510](#) [G2089](#)

फिर मैंने एक नया स्वर्ग और नयी धरती देखी। क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली धरती लुप्त हो चुके थे। और वह सागर भी अब नहीं रहा था।

2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἱερουσαλὴμ καινὴν, εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ  
और वह नगर वह पवित्र यरूशलेम नया मैंने-देखा उतरती-हुई से  
[G2532](#) [G3588](#) [G4172](#) [G3588](#) [G0040](#) [G2419](#) [G2537](#) [G3708](#) [G2597](#) [G1537](#)

τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ  
उस स्वर्ग से उस परमेश्वर तैयार-की-हुई जैसे दुल्हन सजी-हुई उस  
[G3588](#) [G3772](#) [G0575](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2090](#) [G5613](#) [G3565](#) [G2885](#) [G3588](#)

ἀνδρὶ αὐτῆς.  
पति-के-लिए उसके  
[G0435](#) [G0846](#)

मैंने यरूशलेम की वह पवित्र नगरी भी आकाश से बाहर निकल कर परमेश्वर की ओर से नीचे उतरते देखी। उस नगरी को ऐसे सजाया गया था जैसे मानों किसी दुल्हन को उसके पति के लिए सजाया गया हो।

3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου, λεγούσης, Ἴδοῦ, ἡ σκηνὴ  
और मैंने-सुना आवाज़ बड़ी से उस सिंहासन कहती-हुई देखो वह तंबू  
[G2532](#) [G0191](#) [G5456](#) [G3173](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2362](#) [G3004](#) [G3708](#) [G3588](#) [G4633](#)

τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ  
उस परमेश्वर-का साथ उन मनुष्यों और निवास-करेगा साथ उनके और वे  
[G3588](#) [G2316](#) [G3326](#) [G3588](#) [G0444](#) [G2532](#) [G4637](#) [G3326](#) [G0846](#) [G2532](#) [G0846](#)

λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός].  
लोग उसके होंगे और वही वह परमेश्वर साथ उनके होगा उनका परमेश्वर  
[G2992](#) [G0846](#) [G1510](#) [G2532](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3326](#) [G0846](#) [G1510](#) [G0846](#) [G2316](#)

तभी मैंने आकाश में एक ऊँची ध्वनि सुनी। वह कह रही थी, “देखो अब परमेश्वर का मन्दिर मनुष्यों के बीच है और वह उन्हीं के बीच घर बनाकर रहा करेगा। वे उसकी प्रजा होंगे और स्वयं परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा।”

4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν; καὶ ὁ θάνατος  
और पोंछेगा हर आँसू से उन आँखों उनकी और वह मृत्यु  
[G2532](#) [G1813](#) [G3956](#) [G1144](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3788](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2288](#)

οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος, οὔτε κραυγὴ, οὔτε πόνος; οὐκ ἔσται ἔτι,  
नहीं होगी फिर न-ही शोक न-ही रोना न-ही पीड़ा नहीं होगा फिर  
[G3756](#) [G1510](#) [G2089](#) [G3777](#) [G3997](#) [G3777](#) [G2906](#) [G3777](#) [G4192](#) [G3756](#) [G1510](#) [G2089](#)

ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.  
क्योंकि वे पहली चले-गई  
[G3754](#) [G3588](#) [G4413](#) [G0565](#)

उनकी आँख से वह हर आँसू पोंछ डालेगा। और वहाँ अब न कभी मृत्यु होगी, न शोक के कारण कोई रोना-धोना और नहीं कोई पीड़ा। क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी हैं।”

5 καὶ εἶπεν ὁ καθηήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἴδοὺ, καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ  
 और कहा वह बैठा-हुआ पर उस सिंहासन देखो नए बनाता-हूँ सब और  
[G2532](#) [G3004](#) [G3588](#) [G2521](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2362](#) [G3708](#) [G2537](#) [G4160](#) [G3956](#) [G2532](#)

λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ εἰσιν.  
 कहता-है लिख क्योंकि ये वे वचन विश्वासयोग्य और सच्चे हैं  
[G3004](#) [G1125](#) [G3754](#) [G3778](#) [G3588](#) [G3056](#) [G4103](#) [G2532](#) [G0228](#) [G1510](#)

इस पर जो सिंहासन पर बैठा था, वह बोला, “देखो, मैं सब कुछ नया किए दे रहा हूँ।” उसने फिर कहा, “इसे लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास करने योग्य हैं और सत्य हैं।”

6 καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν! ἐγὼ [εἰμι] τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠ, ἡ ἀρχὴ  
 और कहा मुझे हो-गए मैं हूँ वह अल्फा और वह ओमेगा वह आरंभ  
[G2532](#) [G3004](#) [G1473](#) [G1096](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0001](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5598](#) [G3588](#) [G0746](#)

καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος  
 और वह अन्त मैं उस प्यासे-हुए दूँगा से उस झरने उस पानी  
[G2532](#) [G3588](#) [G5056](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1372](#) [G1325](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4077](#) [G3588](#) [G5204](#)

τῆς ζωῆς δωρεάν.  
 उस जीवन-के मुफ्त  
[G3588](#) [G2222](#) [G1432](#)

वह मुझसे फिर बोला, “सब कुछ पूरा हो चुका है। मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अन्त हूँ। जो भी प्यासा है मैं उसे जीवन-जल के स्रोत से सेंट-मेंत में मुक्त भाव से जल पिलाऊँगा।

7 ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεός, καὶ αὐτὸς ἔσται  
 वह जीतनेवाला विरासत-में-पाएगा ये और हूँगा उसका परमेश्वर और वही होगा  
[G3588](#) [G3528](#) [G2816](#) [G3778](#) [G2532](#) [G1510](#) [G0846](#) [G2316](#) [G2532](#) [G0846](#) [G1510](#)

μοι υἱός:  
 मेरा पुत्र  
[G1473](#) [G5207](#)

जो विजयी होगा, उस सब कुछ का मालिक बनेगा। मैं उसका परमेश्वर होऊँगा और वह मेरा पुत्र होगा।

8 τοῖς δὲ δειλοῖς, καὶ ἀπίστοις, καὶ ἐβδελυγμένοις, καὶ φονεῦσιν, καὶ  
 उन परन्तु कायरों और अविश्वासियों और घृणितों और हत्यारों और  
[G3588](#) [G1161](#) [G1169](#) [G2532](#) [G0571](#) [G2532](#) [G0948](#) [G2532](#) [G5406](#) [G2532](#)

πόρνοις, καὶ φαρμάκοις, καὶ εἰδωλόατραις, καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν, τὸ  
 व्यभिचारियों और जादूगरोँ और मूर्तिपूजकों और सब उन झूठों वह  
[G4205](#) [G2532](#) [G5333](#) [G2532](#) [G1496](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3588](#) [G5571](#) [G3588](#)

μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὃ ἐστίν  
 भाग उनका में उस झील उस जलती-हुई आग-से और गंधक-से जो है  
[G3313](#) [G0846](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3041](#) [G3588](#) [G2545](#) [G4442](#) [G2532](#) [G2303](#) [G3739](#) [G1510](#)

ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.  
 वह मृत्यु वह दूसरी  
[G3588](#) [G2288](#) [G3588](#) [G1208](#)

किन्तु कायरों अविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूटोना करने वालों मूर्तिपूजकों और सभी झूठ बोलने वालों को भभकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बँटाना होगा। यही दूसरी मृत्यु है।”

- 9 Καὶ ἦλθεν εἰς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων, τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας  
 और आया एक से उन सात स्वर्गदूतों उन रखनेवालों वे सात कटोरे  
[G2532](#) [G2064](#) [G1520](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0032](#) [G3588](#) [G2192](#) [G3588](#) [G2033](#) [G5357](#)
- τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἑμοῦ,  
 उन भरे-हुए उन सात विपत्तियों उन अंतिम और बोला साथ मेरे  
[G3588](#) [G1073](#) [G3588](#) [G2033](#) [G4127](#) [G3588](#) [G2078](#) [G2532](#) [G2980](#) [G3326](#) [G1473](#)
- λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.  
 कहता-हुआ आ मैं-दिखाऊँगा तुझे वह दुल्हन वह पत्नी उस मेम्ने-की  
[G3004](#) [G1204](#) [G1166](#) [G4771](#) [G3588](#) [G3565](#) [G3588](#) [G1135](#) [G3588](#) [G0721](#)

फिर उन सात दूतों में से जिनके पास सात अंतिम विनाशों से भरे कटोरे थे, एक आगे आया और मुझसे बोला, "यहाँ आ। मैं तुझे वह दुल्हन दिखा दूँ जो मेमने की पत्नी है।"

- 10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν Πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ  
 और ले-गया मुझे में आत्मा पर पहाड़ बड़ा और ऊँचा और  
[G2532](#) [G0667](#) [G1473](#) [G1722](#) [G4151](#) [G1909](#) [G3735](#) [G3173](#) [G2532](#) [G5308](#) [G2532](#)
- ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ, καταβαίνουσιν ἐκ τοῦ  
 दिखाया मुझे वह नगर वह पवित्र यरूशलेम उतरती-हुई से उस  
[G1166](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4172](#) [G3588](#) [G0040](#) [G2419](#) [G2597](#) [G1537](#) [G3588](#)
- οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,  
 स्वर्ग से उस परमेश्वर  
[G3772](#) [G0575](#) [G3588](#) [G2316](#)

अभी मैं आत्मा के आवेश में ही था कि वह मुझे एक विशाल और ऊँचे पर्वत पर ले गया। फिर उसने मुझे यरूशलेम की पवित्र नगरी का दर्शन कराया। वह परमेश्वर की ओर से आकाश से नीचे उतर रही थी।

- 11 ἔχουσιν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ  
 रखती-हुई वह महिमा उस परमेश्वर-की वह ज्योति उसकी समान पत्थर-के  
[G2192](#) [G3588](#) [G1391](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G5458](#) [G0846](#) [G3664](#) [G3037](#)
- τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι;  
 बहुमूल्य जैसे पत्थर-के यशब स्फटिकसमान  
[G5093](#) [G5613](#) [G3037](#) [G2393](#) [G2929](#)

वह परमेश्वर की महिमा से मण्डित थी। वह सर्वथा निर्मल यशब नामक महामूल्यवान रत्न के समान चमक रही थी।

- 12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς  
 रखती-हुई दीवार बड़ी और ऊँची रखती-हुई फाटक बारह और पर उन  
[G2192](#) [G5038](#) [G3173](#) [G2532](#) [G5308](#) [G2192](#) [G4440](#) [G1427](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3588](#)
- πυλῶσιν ἀγγέλου δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἃ ἐστὶν [τὰ  
 फाटकों स्वर्गदूत बारह और नाम लिखे-हुए जो हैं वे  
[G4440](#) [G0032](#) [G1427](#) [G2532](#) [G3686](#) [G1924](#) [G3739](#) [G1510](#) [G3588](#)
- ὀνόματα] τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραὴλ.  
 नाम उन बारह गोत्रों पुत्रों इस्राएल-के  
[G3686](#) [G3588](#) [G1427](#) [G5443](#) [G5207](#) [G2474](#)

नगरी के चारों ओर एक विशाल ऊँचा परकोटा था जिसमें बारह द्वार थे। उन बारहों द्वारों पर बारह स्वर्गदूत थे। तथा बारहों द्वारों पर इस्राएल के बारह कुलों के नाम अंकित थे।

- 13 ἀπὸ ἀνατολῆς, πυλῶνες τρεῖς; καὶ ἀπὸ βορρᾶ, πυλῶνες τρεῖς; καὶ ἀπὸ  
 से पूर्व फाटक तीन और से उत्तर फाटक तीन और से  
[G0575](#) [G0395](#) [G4440](#) [G5140](#) [G2532](#) [G0575](#) [G1005](#) [G4440](#) [G5140](#) [G2532](#) [G0575](#)
- νότου, πυλῶνες τρεῖς; καὶ ἀπὸ δυσμῶν, πυλῶνες τρεῖς.  
 दक्षिण फाटक तीन और से पश्चिम फाटक तीन  
[G3558](#) [G4440](#) [G5140](#) [G2532](#) [G0575](#) [G1424](#) [G4440](#) [G5140](#)

इनमें से तीन द्वार पूर्व की ओर थे, तीन द्वार उत्तर की ओर, तीन द्वार दक्षिण की ओर, और तीन द्वार पश्चिम की ओर थे।

- 14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως, ἔχων θεμελίουσ δώδεκα, καὶ ἐπ’ αὐτῶν  
और वह दीवार उस नगर-की रखती-हुई नीचे बारह और पर उन  
[G2532](#) [G3588](#) [G5038](#) [G3588](#) [G4172](#) [G2192](#) [G2310](#) [G1427](#) [G2532](#) [G1909](#) [G0846](#)
- δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου.  
बारह नाम उन बारह प्रेरितों उस मेम्ने-के  
[G1427](#) [G3686](#) [G3588](#) [G1427](#) [G0652](#) [G3588](#) [G0721](#)

नगर का परकोटा बारह नीचों पर बनाया गया था तथा उन पर मेमने के बारह प्रेरितों के नाम अंकित थे।

- 15 Καὶ ὁ λαῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ  
और वह बोलनेवाला साथ मेरे रखता-था नाप सरकण्डा सुनहरी ताकि नापे  
[G2532](#) [G3588](#) [G2980](#) [G3326](#) [G1473](#) [G2192](#) [G3358](#) [G2563](#) [G5552](#) [G2443](#) [G3354](#)
- τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.  
वह नगर-को और उन फाटकों उसके और वह दीवार उसकी  
[G3588](#) [G4172](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4440](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5038](#) [G0846](#)

जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था, उसके पास सोने से बनी नापने की एक छड़ी थी जिससे वह उस नगर को, उसके द्वारों को और उसके परकोटे को नाप सकता था।

- 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον [καὶ] τὸ πλάτος.  
और वह नगर चौकोर स्थित-है और वह लंबाई उसकी जितनी और वह चौड़ाई  
[G2532](#) [G3588](#) [G4172](#) [G5068](#) [G2749](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3372](#) [G0846](#) [G3745](#) [G2532](#) [G3588](#)
- καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλᾶμῳ, ἐπὶ σταδίων δώδεκα  
और नापा वह नगर-को उस सरकण्डे-से पर स्टेडिया बारह  
[G4114](#) [G2532](#) [G3354](#) [G3588](#) [G4172](#) [G3588](#) [G2563](#) [G1909](#) [G4712](#) [G1427](#)
- χιλιάδων. τὸ μῆκος, καὶ τὸ πλάτος, καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, ἴσα ἐστίν.  
हज़ार वह लंबाई और वह चौड़ाई और वह ऊँचाई उसकी बराबर हैं  
[G5505](#) [G3588](#) [G3372](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4114](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5311](#) [G0846](#) [G2470](#) [G1510](#)

नगर को वर्गाकार में बसाया गया था। यह जितना लम्बा था उतना ही चौड़ा था। उस स्वर्गदूत ने उस छड़ी से उस नगरी को नापा। वह कोई बारह हज़ार स्टेडिया पायी गयी। उसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई एक जैसी थी।

- 17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν,  
और नापा वह दीवार उसकी सौ चालीस चार हाथ  
[G2532](#) [G3354](#) [G3588](#) [G5038](#) [G0846](#) [G1540](#) [G5062](#) [G5064](#) [G4083](#)
- μέτρον ἀνθρώπου, ὃ ἐστὶν ἀγγέλου.  
नाप मनुष्य-का जो है स्वर्गदूत-का  
[G3358](#) [G0444](#) [G3739](#) [G1510](#) [G0032](#)

स्वर्गदूत ने फिर उसके परकोटे को नापा। वह कोई एक सौ चालीस हाथ था। उसे मनुष्य के हाथों की लम्बाई से नापा गया था जो हाथ स्वर्गदूत का भी हाथ है।

- 18 καὶ ἡ ἐνδύμησις τοῦ τείχους, αὐτῆς ἴασαι; καὶ ἡ πόλις χρυσίον  
और वह निर्माण उस दीवार-का उसकी यशब और वह नगर सोना  
[G2532](#) [G3588](#) [G1739](#) [G3588](#) [G5038](#) [G0846](#) [G2393](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4172](#) [G5553](#)
- καθαρόν, ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.  
शुद्ध समान काँच-के शुद्ध  
[G2513](#) [G3664](#) [G5194](#) [G2513](#)

नगर का परकोटा यशब नामक रत्न का बना था तथा नगर को काँच के समान चमकते शुद्ध सोने से बनाया गया था।

- 19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως, παντὶ λίθῳ τιμῶ κεκοσμημένοι;  
वे नीवें उस दीवार-के उस नगर-की हर पत्थर-से बहुमूल्य सजी-हुई  
[G3588](#) [G2310](#) [G3588](#) [G5038](#) [G3588](#) [G4172](#) [G3956](#) [G3037](#) [G5093](#) [G2885](#)
- ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος, ἴασις; ὁ δεῦτερος, σάπφιρος; ὁ τρίτος,  
वह नीव वह पहली यशब वह दूसरी नीलम वह तीसरी  
[G3588](#) [G2310](#) [G3588](#) [G4413](#) [G2393](#) [G3588](#) [G1208](#) [G4552](#) [G3588](#) [G5154](#)
- χαλκηδών; ὁ τέταρτος, σμάραγδος;  
पीतराज वह चौथी पन्ना  
[G5472](#) [G3588](#) [G5067](#) [G4665](#)

नगर के परकोटे की नीवें हर प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सजाई गयी थी। नीव का पहला पत्थर यशब का बना था, दूसरी नीलम से, तीसरी स्फटिक से, चौथी पन्ने से,

- 20 ὁ πέμπτος, σαρδόνυξ; ὁ ἕκτος, σάρδιον; ὁ ἕβδομος, χρυσόλιθος; ὁ  
वह पाँचवीं गोमेद वह छठवीं लाल-रत्न वह सातवीं स्वर्ण-पीतराज वह  
[G3588](#) [G3991](#) [G4557](#) [G3588](#) [G1623](#) [G4556](#) [G3588](#) [G1442](#) [G5555](#) [G3588](#)
- ὄγδοος, βήρυλλος; ὁ ἕνατος, τοπάζιον; ὁ δέκατος, χρυσόπρασος; ὁ  
आठवीं बैरूज वह नौवीं पुखराज वह दसवीं स्वर्ण-प्रास वह  
[G3590](#) [G0969](#) [G3588](#) [G1766](#) [G5116](#) [G3588](#) [G1182](#) [G5556](#) [G3588](#)
- ἐνδέκατος, ὑάκινθος; ὁ δωδέκατος, ἀμέθυστος.  
ग्यारहवीं नीलमणि वह बारहवीं कटैला  
[G1734](#) [G5192](#) [G3588](#) [G1428](#) [G0271](#)

पाँचवीं गोमेद से, छठी मानक से, सातवीं पीत मणि से, आठवीं पेरोज से, नौवीं पुखराज से, दसवीं लहसनिया से, ग्यारहवीं धूम्रकांत से और बारहवीं चन्द्रकांत मणि से बनी थी।

- 21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες, δώδεκα μαργαρίται; ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν  
और वे बारह फाटक बारह मोती एक-एक एक प्रत्येक उन  
[G2532](#) [G3588](#) [G1427](#) [G4440](#) [G1427](#) [G3135](#) [G0303](#) [G1520](#) [G1538](#) [G3588](#)
- πυλῶνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου; καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσοῖον  
फाटकों-का था से एक मोती और वह चौड़ी-सड़क उस नगर-की सोना  
[G4440](#) [G1510](#) [G1537](#) [G1520](#) [G3135](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4113](#) [G3588](#) [G4172](#) [G5553](#)
- καθαρόν, ὡς ὕαλος διαυγής.  
शुद्ध जैसे काँच पारदर्शी  
[G2513](#) [G5613](#) [G5194](#) [G1306](#)

बारहों द्वारा बारह मोतियों से बने थे, हर द्वार एक-एक मोती से बना था। नगर की गलियाँ स्वच्छ काँच जैसे शुद्ध सोने की बनी थीं।

- 22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ; ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ  
और मन्दिर नहीं मैंने-देखा में उस वह क्योंकि प्रभु वह परमेश्वर वह  
[G2532](#) [G3485](#) [G3756](#) [G3708](#) [G1722](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1063](#) [G2962](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)
- Παντοκράτωρ, ναὸς αὐτῆς ἐστίν -- καὶ τὸ Ἄρνιον.  
सर्वशक्तिमान मन्दिर उसकी है और वह मेम्ना  
[G3841](#) [G3485](#) [G0846](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0721](#)

नगर में मुझे कोई मन्दिर दिखाई नहीं दिया। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसके मन्दिर थे।

23	καὶ	ἡ	πόλις	οὐ	χρεΐαν	ἔχει	τοῦ	ἡλίου,	οὐδὲ	τῆς	σελήνης,	ἵνα
	और	वह	नगर	नहीं	आवश्यकता	रखता-है	उस	सूर्य-की	न-ही	उस	चन्द्रमा-की	ताकि
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4172</a>	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G5532</a>	<a href="#">G2192</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2246</a>	<a href="#">G3761</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4582</a>	<a href="#">G2443</a>
	φαίνωσιν	αὐτῆ;	ἡ	γὰρ	δόξα	τοῦ	Θεοῦ	ἐφώτισεν	αὐτήν,	καὶ	ὁ	
	चमकें	उसे	वह	क्योंकि	महिमा	उस	परमेश्वर-की	प्रकाशित-करती-है	उसे	और	वह	
	<a href="#">G5316</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1063</a>	<a href="#">G1391</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2316</a>	<a href="#">G5461</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	
	λύχνος	αὐτῆς	τὸ	Ἄρνιον.								
	दीपक	उसकी	वह	मेम्ना								
	<a href="#">G3088</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0721</a>								

उस नगर को किसी सूर्य या चन्द्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है कि वे उसे प्रकाश दें, क्योंकि वह तो परमेश्वर के तेज से आलोकित था। और मेमना ही उस नगर का दीपक है।

24	καὶ	περιπατήσουσιν	τὰ	ἔθνη	διὰ	τοῦ	φωτὸς	αὐτῆς;	καὶ	οἱ	βασιλεῖς	
	और	चलेंगी	वे	जातियाँ	द्वारा	उस	ज्योति	उसकी	और	वे	राजा	
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G4043</a>		<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1484</a>	<a href="#">G1223</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5457</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0935</a>
	τῆς	γῆς	φέρουσιν	τὴν	δόξαν	<καὶ	τιμὴν	τῶν	ἔθνων>	αὐτῶν	εἰς	αὐτήν.
	उस	पृथ्वी-के	लाते-हैं	वह	महिमा	और	सम्मान	उन	जातियों-का	उनका	में	उस
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G5342</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1391</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G5092</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1484</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G0846</a>

सभी जातियों के लोग इसी दीपक के प्रकाश के सहारे आगे बढ़ेंगे। और इस धरती के राजा अपनी भव्यता को इस नगर में लायेंगे।

25	καὶ	οἱ	πυλῶνες	αὐτῆς	οὐ	μὴ	κλεισθῶσιν	ἡμέρας;	νύξ	γὰρ	οὐκ
	और	वे	फाटक	उसके	नहीं	कभी	बन्द-होंगे	दिन	रात	क्योंकि	नहीं
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4440</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G3361</a>	<a href="#">G2808</a>	<a href="#">G2250</a>	<a href="#">G3571</a>	<a href="#">G1063</a>	<a href="#">G3756</a>
	ἔσται	ἐκεῖ.									
	होगी	वहाँ									
	<a href="#">G1510</a>	<a href="#">G1563</a>									

दिन के समय इसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे और वहाँ रात तो कभी होगी ही नहीं।

26	καὶ	οἴσουσιν	τὴν	δόξαν	καὶ	τὴν	τιμὴν	τῶν	ἔθνων	εἰς	αὐτήν.
	और	लाएँगे	वह	महिमा	और	वह	सम्मान	उन	जातियों-का	में	उस
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G5342</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1391</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5092</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1484</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G0846</a>

जातियों के कोष और धन सम्पत्ति को उस नगर में लाया जायेगा।

27	καὶ	οὐ	μὴ	εἰσέλθῃ	εἰς	αὐτήν	πᾶν	κοινὸν,	καὶ	ὁ	ποιῶν	βδέλυγμα
	और	नहीं	कभी	प्रवेश-करेगा	में	उस	कोई	अशुद्ध	और	वह	करनेवाला	घृणा
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G3361</a>	<a href="#">G1525</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3956</a>	<a href="#">G2839</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4160</a>	<a href="#">G0946</a>
	καὶ	ψεῦδος;	εἰ	μὴ	οἱ	γεγραμμένοι	ἐν	τῷ	βιβλίῳ	τῆς	ζωῆς	τοῦ
	और	झूठ	यदि	नहीं	वे	लिखे-हुए	में	उस	पुस्तक	उस	जीवन-की	उस
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G5579</a>	<a href="#">G1487</a>	<a href="#">G3361</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1125</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0975</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2222</a>	<a href="#">G3588</a>
	Ἄρνιον.											
	मेम्ने-की											
	<a href="#">G0721</a>											

कोई अपवित्र वस्तु तो उसमें प्रवेश तक नहीं कर पायेगी और न ही लज्जापूर्ण कार्य करने वाले और झूठ बोलने वाले उसमें प्रवेश कर पाएँगे उस नगरी में तो प्रवेश बस उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं।